

नकली विदेशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार

Publish Date: Fri, 28 Jan 2022 08:21 AM (IST) Author: Jagran



संबलपुर आबकारी खुफिया टीम की ओर से पानपोष में छापेमारी कर नकली शराब जब्त किया एवं कारोबारी को पकड़ा।

जागरण संवाददाता, राउरकेला : संबलपुर आबकारी खुफिया टीम की ओर से पानपोष में छापेमारी कर नकली शराब जब्त किया एवं कारोबारी को पकड़ा। बसंती कालोनी, तुमकेला समेत अन्य क्षेत्रों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त किया गया। इन मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया एवं इसकी जांच शुरू की गई है। आबकारी विभाग की ओर से की गई छापेमारी में पानपोष अंचल के कारोबारी विश्राम कुजूर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 63 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। वह झारखंड से नकली शराब लाकर यहां पैक करने के बाद ढाबा व होटल में आपूर्ति करता था। पिछले कुछ महीने से उसका यह धंधा चल रहा था। आबकारी विभाग के एसपी विप्रचरण मंडल व इंस्पेक्टर शशिकांत दत्त की अगुवाई में टीम के द्वारा छापेमारी कर उसे पकड़ा गया। आबकारी विभाग की ओर से तुमकेला खड़िया बस्ती व बसंती कालोनी के हरिपुर बस्ती में भी छापेमारी कर 84 लीटर देसी शराब के साथ कारोबारी राजू खड़िया, शंकर प्रसाद साह को गिरफ्तार किया गया। दोनों लंबे समय से शराब का कारोबार कर रहे थे। कोविड अस्पताल की एनएम का वेतन बढ़ाने की मांग : कोरोना काल में विभिन्न कोविड अस्पतालों में नियोजित एनएम का वेतन बढ़ाने की मांग बीजद की ओर से की गई है। इसके लिए जिलापाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि कोराना की पहली व दूसरी लहर में कोविड अस्पतालों अस्थायी एनएम नियोजित की गई हैं। अपने एवं परिवार वालों की जान की परवाह न कर दिन रात मरीजों का इलाज करने वाली एनएम को कोरोना योद्धा घोषित करने, दैनिक 850 रुपये पारिश्रमिक दिया जाना था। सुंदरगढ़ जिले में डीएमएफ से उन्हें केवल 550 रुपये दिए जा रहे हैं। रविवार को अवकाश देने के साथ अस्वस्थता पर दैनिक मजदूरी से वंचित नहीं करने का अनुरोध भी किया गया है।

Source: <https://www.jagran.com/odisha/rourkela-businessman-arrested-with-fake-foreign-liquor-22418100.html>